

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2014 (अग्रहायण 29, 1936)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2014 (AGRAHAYANA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली—110001, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

सं. ए-19012/127/14—यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.), योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21/(डी.डी./हैडक्वार्टर)/11—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 04.08.2014, तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आदेश सं. प्रशा.—I/ऑफिस ऑर्डर सं. पी/जे (36)/ प्रशा.— III/976 दिनांक 14.10.2014 के अनुसरण में, श्रीमती ग्रेसी जेम्स ने, दिनांक 17.10.2014 (अपराह्न) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड रु. 15,600—39100 + 6600 ग्रेड पे, में प्रतिनियुक्ति आधार पर उपनिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं० ए-19/जी-ए/105—श्री मो० अमीन, संयुक्त निदेशक (नयाचार), जिनकी सेवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिनांक 01.10.2010 के पत्र सं. ए.19011/9/2002 ई-एच, के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निपटान में रखी गई थी, को एतद्द्वारा दिनांक 30.10.2014 (पूर्वाह्न) से इस निदेश के साथ कार्यमुक्त किया जाता है कि वे अपने मूल कार्यालय को रिपोर्ट करें।

ए. एन. दास, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसंबर 2014

सं. ए. 38012/2/2014-प्रशा-1(वि.वि.)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री प्रभाकर सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय 30 नवंबर, 2014 की अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसंबर 2014

सं0ए-12023/1/2005-प्रशा0111 (वि0का0)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा-शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री जी0ई0वीरभद्रप्पा, उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण दिनांक 26 जुलाई, 2013 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी0 चौधरी, अवर सचिव

सं0ए-12023/18/99-प्रशा0111(वि0का0)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री डी0 के0 अग्रवाल, न्यायिक सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण दिनांक 28 फरवरी, 2013 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी0 चौधरी, अवर सचिव

सं0ए-12023/18/2007-प्रशा0111(वि0का0)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री मेहर सिंह, लेखा सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण दिनांक 7 अप्रैल, 2013 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी0 चौधरी, अवर सचिव

सं0 ए-19011/3/2014-प्रशा0111 (वि0का0)—अधिवर्षिता की आयु होने पर, आयकर अपीलीय अधिकरण के श्री पी0वी0 शिवरामन, उप पंजीकार दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी0 चौधरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवंबर 2014

सं. आई-18012/1/2014-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं:-

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई किये जाने की तारीख
1.	डी0 एस0 कोरबू	03.06.2005
2.	आर0 के0 मराठे	21.03.2006
3.	डा0 राजेन्द्र प्रसाद	21.03.2006
4.	डी0 के0 आर्य	21.03.2006

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2014

सं. आई-14011/8/2014-आईपीएस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 13/11/2014 को चयन समिति की दिनांक 29/09/2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के मणिपुर खण्ड में 02 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु मणिपुर पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची 2013

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	एच० जोगेशचन्द्रा	03/12/1969
2.	एन० हिरोजीत मिर्तेई	01/02/1971

2. विविध सिविल आवेदन संख्या 556/2003 में पारित माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय ईम्फाल पीठ के आदेश दिनांक 06/05/2005 के आलोक में वरिष्ठता सूची दिनांक 26/09/2003 के अन्तर्गत हुई पदोन्नतियों श्री एस० मनोबी सिंह एवं अन्य द्वारा मणिपुर राज्य एवं अन्य के बनाम दायर रिट याचिका सिविल नं० 8982/2003 (गोहाटी)/195/2004 (ईम्फाल) के परिणाम के अध्ययधीन होगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/8/2014-आई पी एस-1(II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग का मणिपुर खण्ड प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2013

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	एच० जोगेशचन्द्रा	03/12/1969
2.	एन० हिरोजीत मिर्तेई	01/02/1971

2. विविध सिविल आवेदन संख्या 556/2003 में पारित माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय ईम्फाल पीठ के आदेश दिनांक 06/05/2005 के आलोक में वरिष्ठता सूची दिनांक 26/09/2003 के अन्तर्गत हुई पदोन्नतियों श्री एस० मनोबी सिंह एवं अन्य द्वारा मणिपुर राज्य एवं अन्य के बनाम दायर रिट याचिका सिविल नं० 8982/2003 (गोहाटी)/195/2004 (ईम्फाल) के परिणाम के अध्ययधीन होगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2014

सं. आई-14011/8/2014-आईपीएस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28/11/2014 को चयन समिति की दिनांक 20/10/2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस

सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में कुल 3 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

चयन सूची 2013

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	मिलना कुर्रे	16/11/1968
2.	कमलोचन कश्यप	01/01/1966
3.	के० एल० धुव्र	04/09/1964

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/18/2014-आई पी एस-1 (II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2013

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	मिलना कुर्रे	16/11/1968
2.	कमलोचन कश्यप	01/01/1966
3.	के० एल० धुव्र	04/09/1964

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

महानिदेशालय

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

नई दिल्ली-110066, दिनांक दिसम्बर 2014

सं. I-17018/स्था.I/724/रा.आ.मो. बल/2014/4257—राष्ट्रपति, श्री ओ. पी. सिंह, भा.पु.से. (यूपी : 83) को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, गृह मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर (ए.डी.जी. स्तर), वेतन स्केल रुपये 67,000—79,000/- पर, दिनांक 02.12.2014 (पूर्वाह्न) से 15.01.2018 तक अर्थात् उनके शेष केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

संदीप राय राठौर, महानिरीक्षक
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं नागरिक सुरक्षा

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2014

सं. ए-19011/4/2014-अ.रा.प्र.—राष्ट्रपति, श्री हरे कृष्ण दाश, भा० प्र० से० (गुजरात:80) को अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, (गृह मंत्रालय) में भारत सरकार के सचिव के रूप में सचिव के रैंक एवं वेतनमान में दिनांक 26 अगस्त, 2014 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

लाजपत राय गुप्ता, उप सचिव

क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

सं. 25/3/2011 क्षे.प.स.—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय में वर्तमान में तदर्थ आधार पर समिति अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री पी.वी. पीताम्बरन को दिनांक 30/09/2014 (अपराह्न) से वेतन बैंड-2 (रु० 9300-34800/-) ग्रेड वेतन 4600/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु० 6500-10500/-) के वेतनमान में पदोन्नति पर समिति अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

लाजपत राय गुप्ता, उप सचिव

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय

अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. 25/2/2013 क्षे.प.स.—विभागीय पदोन्नति समिति (समूह ख) की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी, द्वारा वर्तमान में तदर्थ आधार पर अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्रीमती आशा शर्मा को दिनांक 30/09/2014 (पूर्वाहन) से वेतन बैंड-2 (रु० 9300-34800/-) ग्रेड वेतन 4200/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति पर नियमित आधार पर अधीक्षक (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि श्रीमती आशा शर्मा को पहले से ही ग्रेड वेतन 4600/- रुपये में एम.ए.सी.पी. प्रदान की गई है।

परमजीत सिंह ठाकुर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. 39019/09/2014-स्थापना-(ख)—राष्ट्रपति, श्री दीपक गुप्ता, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त) को 22 नवम्बर, 2014 से छह वर्षों की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. जयंती, निदेशक

विदेश मंत्रालय

प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2014

सं. डी।।।/460/सीएफ-69/2013—भारत के राष्ट्रपति बेंगलुरु में एस्तोनिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री प्रवीण गोयनका की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री प्रवीण गोयनका के कौंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक राज्य होगा, जिसका केंद्र बेंगलुरु होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2014

सं. ए-35011/7/2013-एडीईडी—राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1993) के अधिकारी श्री वीरेन्द्र ओझा को दिनांक 19.08.2014 (पूर्वाह्न) से 18.08.2018 (अपराह्न) तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 8700/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 37,400—67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन, मुंबई के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. भारती, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

सं० ए-32013/04/2009-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, श्रीमती एस.आर. शिर्नॉय, सहायक निदेशक (प्रशासन) ग्रेड-II को 15600-39100/- रूपए के वेतन बैंड-3 और 5400/- रूपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 11.11.2014 (अपराह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में सहायक निदेशक (प्रशासन) ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत करते हैं।

डी.के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली- 110 003, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. 16-6/2007-आरटी—राष्ट्रपति द्वारा डॉ. बी.एन. मोहंती, आईएफएस (एमटी:1986) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वायत्तशासी संगठन, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईपीआईआरटीआई) बेंगलुरु में निदेशक पद (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति) पर 20.10.2014 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि अथवा अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, पीबी IV (37,400-67,000रु. एवं 10,000/- ग्रेड पे) के वेतनमान में नियुक्ति की जाती है।

डी. के. शर्मा, उप वन महानिरीक्षक (आरटी)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 01 मई 2014

सं. 18012/01/2008-आईएफएस-II—भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के नियम 3(2) द्वारा (भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2007 के नियम 2 द्वारा संशोधित) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा भारतीय वन सेवा में महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित आईएफएस अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से स्थायी करती है:-

क्र.सं	नाम (श्री/श्रीमती)	भर्ती	भा.व.से. में नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि
1.	श्री एम.ए. रेड्डी	आरआर	30.08 .2010	30.08.2012
2.	श्री प्रमोद चन्द लाकड़ा	आरआर	30.08 .2010	30.08.2012
3.	सुश्री नीनू सोमराज	आरआर	30.08 .2010	30.08.2012
4.	सुश्री अनिता पाटिल	आरआर	30.08 .2010	30.08.2012

एस. डी. तिवारी, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2014

सं. 18012/01/2014-आईएफएस-II—भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के नियम 3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा पश्चिम बंगाल संवर्ग से संबंधित निम्नलिखित अधिकारी का उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से भारतीय वन सेवा में कार्योत्तर स्थायीकरण करती है।

क्र.सं.	आईएफएस अधिकारियों का नाम	आईएफएस में नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री वी.बी. माथुर	08.05.1983	08.05.1986

एस. डी. तिवारी, अवर सचिव

दिनांक 12 जून 2014

सं0 24012/07/2013-आईएफएस-II—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा से डा0 श्रीनाथ एन. आईएफएस: 2009 (गुजरात संवर्ग) द्वारा दिए गए तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 13.12.2013 (एएन) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

एस.डी. तिवारी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

संख्या ए. 38016/7/2014-स्था-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत श्रीमती पी० पद्मावती रवि बाबू, सहायक निदेशक, आई० एस० एस० कैडर दिनांक 30.11.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2014

सं. 35-7/2011-प्र. II (पी)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति डा. बी.एस. राजपुरोहित, पशुचिकित्सा अधिकारी को केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार, जो इस विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, में निदेशक के पद पर रूपए 15,600-39,100 (पे बैंड 3)+ 7600/-(पे. ग्रेड) के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. 17014/32/97-एससीडी-IV—राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 52 (ii), (iii), (v), (vi) के अनुसरण में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के बोर्ड में निम्नलिखित को सरकारी निदेशकों के रूप में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त किया है :—

1. श्री प्रेमजीत लाल,
निदेशक (आवास),
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. श्री देवानंद,
उप महाप्रबंधक,
एनएसकेएफडीसी, स्कोप मिनार, 14वां तल,
लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र,
दिल्ली-110092
3. श्री के. वी. नेगी रेड्डी,
उप महानिदेशक (सी एण्ड सीआर),
रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा महानिदेशालय,
रक्षा संपदा भवन,
उलानबातार मार्ग,
दिल्ली कैट-10
4. सुश्री सुशील बाला सिंह,
सहायक महाप्रबंधक,
जन संपर्क एवं सामुदायिक बैंक सेवा विभाग,
भारतीय स्टेट बैंक,
11, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

जी. के. द्विवेदी, निदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 सितंबर 2013

सं. 2-1/2013-प्रशासन—संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 एवं 2011 के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 6/3/2011-सीएस.1(एस) दिनांक 13 अगस्त, 2013 के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तिथि से डाक विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में 9300-34800 रु + 4800/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड 2 के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	नाम(सर्वश्री/श्री/सुश्री)	संवर्ग इकाई जिसमें नियमित सहायक के रूप में कार्यरत हैं	रैंक	नियुक्ति की प्रभावी तिथि
1.	मुथुरमन सी	रक्षा	7	16.08.2013
2.	थान सिंह	उर्वरक	336	30.08.2013 (अपराह्न)
3.	दलबीर सिंह रंगा	ग्रामीण विकास	299	03.09.2013
4.	एन.सुब्बा राव	गृह मंत्रालय	327	03.09.2013 (अपराह्न)

2. डाक विभाग के इस संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति (I) श्री राजीव आर एवं अन्य बनाम भारत संघ, केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 4135/2012, एमए सं. 3477/2012, (II) श्री एम. आर. मीणा एवं अन्य बनाम भारत संघ, केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 4082/2012 एवं एमए सं. 3448/2012, (III) श्री शांती लाल बज्रासी एवं अन्य बनाम भारत संघ, केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओए सं. 4141/2012 के तहत प्राप्त होने वाले निर्णय के आधारित होगी।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 31 जनवरी 2014

सं. 4-2/2011-प्रशासन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 25 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2013-सीएस.1(एस)-I के तहत चयन सूची वर्ष 2009 के लिए वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके समावेशन के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, डाक विभाग के सीएसएस संवर्ग में निम्नलिखित नियमित सहायकों को उसी संवर्ग में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में, वेतन बैंड (पीबी-2) 9300-34800/-रु.+4800/-रु. (ग्रेड वेतन) में 27.01.2014 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:-

1.	श्री पवन कुमार
2.	श्री देवी राम

2. उपर्युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सं. 4-2/2011-प्रशासन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 25 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2013-सीएस.।(एस)-।।। के तहत चयन सूची वर्ष 2011 के लिए वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके समावेशन के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, डाक विभाग के सीएसएस संवर्ग में निम्नलिखित नियमित सहायकों को उसी संवर्ग में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में, वेतन बैंड (पीबी-2) 9300-34800/-रु.+4800/-रु. (ग्रेड वेतन) में 27.01.2014 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:-

1.	श्री डी. पी. गुगलानी	2	श्री राकेश कुमार शर्मा
3	श्री नरेन्द्र प्रकाश	4	श्रीमती सावित्री प्रताप
5	श्रीमती अलीमा टिकी	6	श्री पी. पी. सिंह
7	श्रीमती विजय खरात	8	श्री प्रदीप कुमार
9	श्री डी. के. चन्दा		

2. उपर्युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2014

सं. ईआरबी-1/2014/2/63—राष्ट्रपति जी, श्री एन. के. सिन्हा, एसएजी/आईआरएसई को 24.11.2014 के पूर्वाहन से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार, पुर्ले, रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2014/2/14—राष्ट्रपति जी, श्री मान सिंह, एसएजी/आईआरएसईई, सलाहकार (बिजली), रेलवे बोर्ड की ग्रेड ₹ 75,500-80,000 में पदोन्नति होने पर उन्हें 21.11.2014 के पूर्वाहन से अपर सदस्य (बिजली), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी- 1/2014/2/59—राष्ट्रपति जी, श्री पंकज जैन, एसएजी/आईआरएसई, सलाहकार (सिविल अभियांत्रिकी), रेलवे बोर्ड की ग्रेड ₹ 75,500-80,000 में पदोन्नति होने पर उन्हें 21.11.2014 के पूर्वाहन से अपर सदस्य (सिविल अभियांत्रिकी), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं.ए-12023/2/2014-ई-1—राष्ट्रपति, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री पंकज कुमार को पे बैंड-3, रूपए 15,600-39,100 रु.+ 5400 रु. के ग्रेड पे में 17.07.2014 (पूर्वाहन) से सह-कालिक/प्रतिनियुक्ति आधार पर अगला आदेश दिए जाने तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा कार्यालय से त्यागपत्र देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं ।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं.ए-12023/2/2014-ई-1—राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत श्री संदीप चन्द्रकांत बवाने, आशुलिपिक ग्रेड-डी, को पे बैंड-2, रूपए 9,300-34,800 रु.+ 4800 रु. के ग्रेड पे में 04.07.2014 (पूर्वाहन) से सह-कालिक/प्रतिनियुक्ति आधार पर अगला आदेश दिए जाने तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा कार्यालय से त्यागपत्र देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12025/2/2013-ई-1—कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 10.09.2014 के आदेश संख्या 4/2/2014-सीएस. I(डी) के अनुपालन में राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित उप सचिवों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि का 30.06.2015 तक अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक, इसमें से जो भी पहले हो, विस्तार करते हैं :—

1. श्री ए. डी. जेम्स (सीएसएल नं. 5145)
2. श्री एच. के. कालिन्थांग (सीएसएल नं. 5578)

2. उपर्युक्त उल्लिखित उप सचिवों की तदर्थ नियुक्ति का उपर्युक्त अवधि विस्तार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 14.12.2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सीएस- I(डी) और दिनांक 18.06.2013 के आदेश संख्या 4/3/2013-सीएस-I(डी) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अधधीन है।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं.ए-12023/2/2014-ई-1—राष्ट्रपति, श्री दिनकर बालाजी कुम्हारे, सहायक निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, संपदा निदेशालय, को पे बैंड-3, रूपए 15,600-39,100 रु.+ 5400 रु. के ग्रेड पे में 10.09.2014 (पूर्वाहन) से सह-कालिक/प्रतिनियुक्ति आधार पर अगला आदेश दिए जाने तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवाएं चाहें अथवा कार्यालय से त्यागपत्र देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं.ए-12023/3/2014-ई-1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 3.9.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/3/2014-ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार, आईआरएस (आईटी:1999) को 16.09.2014 (पूर्वाहन) से निदेशक स्तर पर सह-अवसानी आधार पर अथवा मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करने के लिए उनके मना करने तक अथवा अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन बैंड-4 रु.37,400—67,000+ रु.8,700/- के ग्रेड वेतन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पोत मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं ।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2014

सं. ए-12024/3/2014-ई-1—कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.09.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24/4/2014- ईओ (एस.एम.आई) सचिवालय की मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुसरण में, राष्ट्रपति नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के प्रबंध निदेशक श्री आनंद कुमार आईएसएस (केएल:84) को रैंक और ग्रेड पे बैंड-4, 37,400-67000 रूपए + 10,000 रूपए के ग्रेड पे में, इस स्तर के नवीनतम पदों के सृजन तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अस्थायी प्रचालन रूप में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं ।

डी.आर.शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12025/1/2013-ई-1—राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 10.09.2014 के का. ज्ञा. संख्या 4/2/2014-सीएस.। (डी) के अनुसरण में, सीएसएस के नियमित अवर सचिव (ग्रेड-1) श्रीमती ईरेनी चेरीयन (सीएसएल संख्या 5380) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 15,600-39,100 रूपए के पे बैंड-3 + 7,600 रूपए के ग्रेड पे में दिनांक 23.09.2014 (पूर्वाह्न) से 30.06.2015 या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उप-सचिव (चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (i) तदर्थ पदोन्नति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 4097/2011-(अरुण गौड़ बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका संख्या 4616/2011-(वी. एस. पांडे और अन्य बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका संख्या 7619/2011-(संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका संख्या 2176/2012-(भारत संघ बनाम गरिमा सिंह और अन्य) और अन्य संबंधित रिट याचिका संख्याएं रिट याचिका (सिविल) 2523/2012-(भारत संघ बनाम अनंत किशोर सरण), रिट याचिका (सिविल) 2524/2012-(भारत संघ बनाम शेरशा और अन्य), रिट याचिका (सिविल) 2525/2012-(भारत संघ बनाम सैयद इरम रिजवी और अन्य), रिट याचिका (सिविल) 2526/2012-(भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सिविल) सं. 2527/2012-(भारत संघ बनाम सोमया चटोपाध्याय और अन्य) तथा उच्चतम न्यायालय में और किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के अनुसार होगी ।
- (ii) सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) की तदर्थ प्रोन्नति होने पर उनकी इस ग्रेड में नियमित प्रोन्नति हेतु कोई अधिकार नहीं होगा ।
- (iii) तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना, चयन ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी ।
- (iv) यह तदर्थ प्रोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और इसे बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं. ए-12025/1/2010-ई-1—राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.09.2014 के आदेश संख्या 5/11/2014-सीएस.। (यू) के अनुसरण में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीएसएस (सीएसएल सं.8527) के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री शंकर प्रसाद चौधरी को 15,600-39,100 रूपए के पे बैंड-3 + 6600 रूपए के ग्रेड पे में दिनांक 25.09.2014 (पूर्वाह्न) से 31.05.2015 तक की अवधि के लिए या नियमित

आधार पर इन पदों को भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-1) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. उक्त तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन है:-

- (i) यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता हेतु दावा करने हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
- (ii) इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण दिए बगैर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है ।
- (iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना, इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी ।
- (iv) यदि अधिकारी ने सीएसएस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथा-निर्देशित अनिवार्य स्तर 'डी' प्रशिक्षण नहीं किया है तो उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकनों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण करना होगा ।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. ए-12024/3/2014-ई-1—राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 33/5/2014- ईओ (एस.एम.-I) सचिवालय की मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुसरण में, श्री संजय जाजू आईएसएस (एपी:1992) को बैंड-4, 37,400-67,000 रूपए + 10,000 रूपए के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय स्टाफ योजना में निदेशक (वित्त/प्रशासन) (संयुक्त सचिव स्तर) नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के पद पर 20.10.2014 (अपराहन) अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं ।

एच.आर.मीणा, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 22nd October 2014

No. A-19011/127/14-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India (UIDAI), Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 04.08.2014 and O/o the Registrar General of India, New Delhi Order No. Admn.I/Office Order No. P/J(36)-Ad.III/976 dated 14.10.2014, Smt Gracy James has assumed the charge to the post of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 17.10.2014 (A/N) in the pay band of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt)

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 20th October 2014

No. A-19/G-A/105—Shri M. Amin, Joint Director (Protocol), whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India, vide Airport Authority of India's communication No. A.19011/9/2002-EH, dated 01.10.2010, is hereby relieved from the Commission w.e.f 30.10.2014 (F/N), with a direction to report back to his parent office.

A. N. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 1st December, 2014

No.A.38012/2/2014-Admn.I(L.D.): On attaining the age of superannuation, Shri Prabhakar Singh, Joint Secretary and Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice has retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2014.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 4th December 2014

No.A-12023/1/2005-Admn.III(LA): On attaining the age of superannuation, Shri G. E. Veerabhadrappe, retired from Government service as Vice-President, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 26th July, 2013 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No.A-12023/18/99-Admn.III(LA): On attaining the age of superannuation, Shri D. K. Agarwal, retired from Government service as Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 28th February, 2013, in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No.A-12023/18/2007-Admn.III(LA): On attaining the age of superannuation, Shri Mehar Singh, retired from Government service as Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 07th April, 2013 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-19011/3/2014-Admn.III (LA). On attaining the age of superannuation, Shri P. V. Sivaraman, retired from Government Service, as Deputy Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 30th April, 2012.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th November 2014

No. I-18012/1/2014-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Madhya Pradesh in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each: -

SN.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI)	DATE OF CONFIRMATION
1.	D.S. Korbu	03.06.2005
2.	R.K.Marathe	21.03.2006
3.	Dr. Rajendra Prasad	21.03.2006
4.	D. K. Arya	21.03.2006

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

The 3rd December 2014

No. I-14011/8/2014-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 13.11.2014, approved the Select List of the year 2013 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 29.09.2014, containing the names of the following State Police Service officers of Manipur towards filling up 2 substantive vacancies in the Manipur Segment of Joint Manipur-Tripura Cadre of Indian Police Service:-

Select List 2013

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	H. Jogeshchandra	03.12.1969
2	N. Herojit Meetei	01.02.1971

2. On account of order dated 06.05.2005 of the Hon'ble Gauhati High Court, Imphal Bench in Civil Misc. Application No. 556/2003, any promotion made on the basis of the seniority list dated 26.09.2003 shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No.8982 of 2003 (Gauhati)/195 of 2004 (Imphal) filed by Shri S. Manaobi Singh & Others versus the State of Manipur & others.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/8/2014-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Manipur Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Manipur Segment of Joint Manipur-Tripura Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2013

Sl.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	H. Jogeshchandra	03.12.1969
2	N. Herojit Meetei	01.02.1971

2. On account of order dated 06.05.2005 of the Hon'ble Gauhati High Court, Imphal Bench in Civil Misc. Application No. 556/2003, any promotion made on the basis of the seniority list dated 26.09.2003 shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No.8982 of 2003 (Gauhati)/195 of 2004 (Imphal) filed by Shri S. Manaobi Singh & Others versus the State of Manipur & others.

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

The 8th December 2014

No. I-14011/18/2014-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 28.11.2014 approved the Select List of the year 2013 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 20.10.2014, containing the names of the following State Police Service Officers of Chhattisgarh towards filling up of 3 substantive vacancies in the Chhattisgarh Cadre of Indian Police Service :-

Select List 2013

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Milna Kurre	16.11.1968
2	Kamlochan Kashyap	01.01.1966
3	K.L. Dhruv	04.09.1964

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/18/2014-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Chhattisgarh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Chhattisgarh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2013

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Milna Kurre	16.11.1968
2	Kamlochan Kashyap	01.01.1966
3	K.L. Dhruv	04.09.1964

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL

NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

New Delhi-110066, the December 2014

No. I-17018/Estt-I/641/NDRF/2014/4258—The President is pleased to appoint Shri O. P. Singh, IPS (UP : 83) as Director General, National Disaster Response Force (ADG level), Ministry of Home Affairs in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- with effect from the forenoon of 02.12.2014 upto 15.01.2018 i.e. the balance period of his central deputation or until further orders, whichever is earlier.

SANDEEP RAI RATHORE, Inspector General, NDRF & CD

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 26th August 2014

No. A-19011/4/2014-ISC—The President is pleased to appoint Sh. Hare Krushna Dash, IAS (GJ:80) as Secretary, Inter State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, in the rank and pay of Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 26th August, 2014.

L. R. GUPTA, Dy. Secy.

ZONAL COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 10th October 2014

No.25/3/2011-ZCS—On the recommendation of the Union Public Service Commission, Shri P.V. Peethambaran, Superintendent, Northern Zonal Council Secretariat presently working as Committee Officer on ad-hoc basis, is hereby appointed as regular Committee Officer (Group 'B' Gazetted) in Pay Band-2 (Rs.9300-34,800/-) with Grade Pay of Rs.4600/-(pre-revised scale of Rs.6500-10,500/-), on promotion w.e.f. 30th September, 2014 (forenoon).

L. R. GUPTA, Dy. Secy.

NORTHERN ZONAL COUNCIL SECRETARIAT

INTER STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 30th October 2014

No.25/2/2013-ZCS—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee (Group 'B') the competent authority appoints Smt. Asha Sharma presently working as Superintendent on ad-hoc basis as regular Superintendent (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs.9300-34,800/-) with Grade Pay of Rs.4200/-, on promotion w.e.f. 30th September, 2014 (forenoon). However, Smt. Asha Sharma has already been granted MACP in the Grade Pay of Rs.4600/-.

P.S. THAKUR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 2nd December 2014

No. 39019/09/2014-Estt (B)—The President is pleased to appoint Shri Deepak Gupta, IAS (Retd) as Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 22nd November, 2014, for a period of six years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

G. JAYANTHI, Dir.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 20th November 2014

No. DIII/460/CF-69/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Pravin Goenka as the Honorary Consul of the Republic of Estonia in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Pravin Goenka comprises the State of Karnataka with the seat in Bengaluru.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 26th November 2014

No. A-35011/7/2013-Ad.ED—The President of India is pleased to appoint Shri Virendra Ojha, IRS(IT-1993) as Additional Director of Enforcement, Mumbai, in the Directorate of Enforcement, on deputation basis, in Pay Band-4 of Rs.37400-67000/- with Grade Pay of Rs.8700/-, for a period of 4 years w.e.f. 19.8.2014(FN) to 18.8.2018(AN) or until further orders which ever is earlier.

S.N. BHARTI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS

FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

[DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS]

New Delhi – 110 011, the 8th December 2014

No.A.32013/04/2009-NTH—The President is pleased to promote Smt. S.R. Shenoi, Assistant Director (Administration) Grade - II to the post of Assistant Director (Administration) Grade – I in the National Test House in the Pay band 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 11.11.2014(A/N).

D. K. SONKER, Dy Dir. (NTH)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

New Delhi – 110 003, the 30th October 2014

No. 16-6/2007-RT—The President is pleased to appoint Dr. B.N.Mohanty, IFS (MT : 1986), to the post of Director, Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Bengaluru, an autonomous organization of the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, in the pay scale of PB-IV (Rs. 37,400-67,000/- plus Rs. 10,000/- (GP) on Central Deputation w.e.f the forenoon 20.10.2014 for a period of five years or upto his date of superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

D. K. SHARMA, Dy. Inspector General of Forests (RT)

New Delhi-110003, the 1st May 2014

No. 18012/01/2008-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Rule 3(2) of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968 amended vide rule 2 of Indian Forest Service (Probation) Amendment Rules, 2007, the Central Government hereby confirm the following IFS officers borne on the Cadre of Maharashtra in the Indian Forest Service with effect from the date shown against their name:-

S. No	Name (S/Sh.)	Recruitment	Date of Appointment to the IFS.	Proposed date of confirmation.
1.	Sh. M.A. Reddy	RR	30.08.2010	30.08.2012
2.	Sh. Pramod Chand Lakra	RR	30.08.2010	30.08.2012
3.	Ms. Neenu Somraj	RR	30.08.2010	30.08.2012
4.	Ms. Anita Patil	RR	30.08.2010	30.08.2012

S.D. TIWARI, Under Secy.

The 20th May 2014

No. 18012/01/2014-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Rule 3(2) of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm post facto the following IFS officer borne on the Cadre of West Bengal in the Indian Forest Service with effect from the date shown against his name:-

Sl.No.	Name of IFS officers	Date of appointment to IFS	Date of confirmation
1.	Sh. V.B. Mathur	08.05.1983	08.05.1986

S.D. TIWARI, Under Secy.

The 12th June 2014

No. 24012/07/2013-IFS-II—The President of India is pleased to accept the technical resignation tendered by Dr. Shreenatha N., IFS: 2009 (Gujarat Cadre) from Indian Forest Service with effect from 13.12.2013(AN).

S.D. TIWARI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 1st December 2014

No.A.38016/7/2014-Estt.III. On attaining the age of superannuation, Smt. P. Padmavati Ravi Babu, Assistant Director an officer of ISS Cadre posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from Government Service w.e.f 30.11.2014(AN).

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 24th November 2014

No. 35-7/2011-Admn.III (P)—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. B.S. Rajpurohit, Veterinary Officer, to the post of Director in the pay scale of Rs. 15,600-39,100 (PB 3) + 7600/- (Grade Pay) at Central Sheep Breeding Farm, Hisar, a subordinate office under this Department, w.e.f. 07.11.2014.

R.S. JAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 21st November 2014

No. 17014/32/97-SCD-IV—In pursuance of Article 52 (ii),(iii),(v),(vi) of Articles of Association of National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, New Delhi, the President is pleased to appoint the following as Official Directors on the Board of the National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC), with immediate effect and until further orders:

1. Shri. Premjit Lal,
Director (Housing),
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Shri. Devanad,
Dy. General Manager.
NSFDC, Scope Minar, 14th Floor,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi-110092

3. Sh. K.V.Nagi Reddy,
Dy. Director General (C&Cr)
Ministry of Defence, Directorate of General Defence Estate
Raksha Sampada Bhawan
Ulaanbaatar Marg,
Delhi Cantt 10.
4. Mrs Sushil Bala Singh,
Asstt. General Manager
Public Relations & Community Services Banking Department
State Bank of India,
11, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

G.K. Dwivedi, Dir.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi – 110 001, the 17th September 2013

No.2-1/2013-Admn.—On the basis of results of the Combined Section Officers'/Stenographers' (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination 2009, 2010 and 2011 and inclusion of their names in the Select List of Section Officers for the year 2009 in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M No.6/3/2011-CS.I(S) dated 13th August, 2013; the President is pleased to appoint following regular Assistants of CSS of the Cadre mentioned against their names, as Section Officer of CSS in Department of Posts in the Pay Band PB-2 of Rs.9300-34800 + Rs.4800/- (Grade Pay) with effect from the dates as mentioned below:-

S.No.	Name (S/Shri/MS)	Cadre Units where working as Regular Assistant	Rank	Effective date of appointment
1.	Muthuraman C	Defence	7	16.08.2013
2.	Than Singh	Fertilizer	336	30.08.2013(A/N)
3.	Dalbir Singh Ranga	Rural Development	299	03.09.2013
4.	N.Subha Rao	MHA	327	03.09.2013(A/N)

2. The appointment of the officers as Section Officer in the cadre of Department of Posts shall be subject to the outcome of (I) the OA No: 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UOI in CAT, New Delhi (II) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M.R.Meena & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi. (III) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.

MANORANJAN SAMAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

The 31st January 2014

No. 4-2/2011-Admn.—Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service against Seniority Quota for the Select List year 2009 vide Department of Personnel & Training's O.M No. 6/2/2013-CS.I(S)-I dated 25th September 2013, the Competent Authority is pleased to appoint following regular Assistants of CSS in the cadre of Department of Posts, to the Section Officers' Grade of CSS in the same cadre, in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9300-34800/- + Rs. 4800/- (Grade Pay) on regular basis w.e.f 27.01.2014:-

1.	Shri Pawan Kumar
2.	Shri Devi Ram

2. The appointment of the above officials would be subject to the conditions mentioned in above mentioned DoP&T's O.M.

MANORANJAN SAMAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

No. 4-2/2011-Admn.—Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service against Seniority Quota for the Select List year 2011 vide Department of Personnel & Training's O.M No. 6/2/2013-CS.I(S)-III dated 25th September 2013, the Competent Authority is pleased to appoint following regular Assistants of CSS in the cadre of Department of Posts, to the Section Officers' Grade of CSS in the same cadre, in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9300-34800/- + Rs. 4800/- (Grade Pay) on regular basis w.e.f 27.01.2014:-

1.	Shri D.P.Guglani	2.	Shri Rakesh Kumar Sharma
3.	Shri Narender Prakash	4.	Smt. Savitri Pratap
5.	Smt. Alima Tirkey	6.	Shri P.P.Singh
7.	Smt. Vijay Kharat	8.	Shri Pradeep Kumar
9.	Shri D.K.Chanda		

2. The appointment of the above officials would be subject to the conditions mentioned in above mentioned DoP&T's O.M.

MANORANJAN SAMAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th November 2014

No. ERB-I/2014/2/14—The President is pleased to appoint Shri Man Singh, HAG/IRSEE, Adviser (Electrical), Railway Board as Additional Member (Electrical), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500-80,000 with effect from forenoon of 21.11.2014.

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2014/2/63—The President is pleased to appoint Shri N.K. Sinha, SAG/IRSE as Adviser (Bridges), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from forenoon of 24.11.2014.

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2014/2/59—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Jain, HAG/IRSE, Adviser (Civil Engineering), Railway Board as Additional Member (Civil Engineering), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500-80,000 with effect from forenoon of 21.11.2014.

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 17th July 2014

No. A-12023/2/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Kumar presently working as Section Officer in the Ministry of Road Transport & Highways as Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Nitin Jairam Gadkari) in Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 + Rs.5400 Grade Pay on co-terminus/deputation basis w.e.f. 17.07.2014 (F.N.) and until further orders or till the Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-12023/2/2014-E-I (Part)—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Chandrakant Bawane, Stenographer Grade-D in the Ministry of Human Resources Development as First PA to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Nitin Jairam Gadkari) in Pay Band-2 Rs.9300-34,800 + Rs.4800 Grade Pay on co-terminus/deputation basis w.e.f. 4.7.2014 (F.N.) and until further orders or till the Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 12th September 2014

No. A-12025/2/2013-E-I—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Order No. 4/2/2014-CS.I(D) dated 10.09.2014, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of following Deputy Secretaries of CSS in the Ministry of Road Transport & Highways upto 30.06.2015 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier:—

1. Shri A. D. James (CSL No. 5145)
2. Shri H. K. Kawllienthang (CSL No. 5578)

3. The above extension of ad hoc appointment of above mentioned Deputy Secretaries is subject to terms and conditions mentioned in Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 14.12.2012 and Order No. 4/3/2013-CS.I(D) dated 18.06.2013.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 16th September 2014

No. A-12023/2/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Dinkar Balaji Kumbhare, Assistant Director in the Ministry of Urban Development, Directorate of Estates as Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Nitin Jairam Gadkari) in Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 + Rs.5400 Grade Pay on co-terminus/deputation basis w.e.f. 10.09.2014 (F.N.) and until further orders or till the Minister desires his services or demits the office whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 18th September 2014

No.A-12023/3/2014-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer)' O.M. No. 1/3/2014-EO(MM-I) dated 3.9.2014, the President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, IRS (IT:1999) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Ministry of Road Transport & Highways and Shipping (Shri Krishan Pal Gurjar) in Pay Band-4 Rs.37,400-67,000 + Rs.8700 Grade Pay at the level of Director on co-terminus basis with the Minister with effect from 16.09.2014 (F.N.) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 7th October 2014

No.A-12024/3/2014-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointment Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No.24/4/2014-EO (SM.I) dated 15.9.2014, the President is pleased to appoint Shri Anand Kumar, IAS (KL:84) as Managing Director, National Highways and Infrastructure Development Company Limited (NHIDCL) under the Ministry of Road Transport & Highways in the rank and pay of Joint Secretary in PB-4 Rs.37,400-67,000 + Rs.10,000 Grade Pay by temporary operating the newly created post at this level.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 9th October 2014

No. A-12025/1/2013-E-I—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Order No.4/2/2014-CS-I (D) dated 10.09.2014, the President is pleased to appoint Ms. Irene Cherian (CSL No.5380), a regular Under Secretary (Grade-I) of CSS as Deputy Secretary (Selection Grade) in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 + Rs.7600 Grade Pay purely on ad-hoc basis with effect from 23.09.2014 (F.N.), initially for a period up to 30.06.2015 or until further orders, whichever is earlier.

2. The afore-said ad hoc appointment is subject to the following conditions:

- (i) The ad hoc promotion is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No.4097/2011-(Arun Gaur Vs Garima Singh & Ors), W.P. No.4616/2011 (V.S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W.P. No.7619/2011- (UPSC Vs Garima Singh & Ors), W.P. No.2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh &

Others) and other connected Writ Petitions Nos. W.P.(C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W.P. (C) No.2524/2012-Union of India Vs. Shersha and Anr.), W.P. (C)No.2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr.),WP. (C), W.P. (C)2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), WP.(C) No.2527/2012(Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High Court of Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.

- (ii) The ad hoc promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS shall not bestow on her any claim for regular promotion to the grade.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in the Selection Grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The ad hoc promotion shall not confer any right on her to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 22nd October 2014

No. A-12025/1/2010-E-I —In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's Order No.5/11/2014-CS.I (U) dated 15.9.2014, the President is pleased to appoint Shri Shankar Prasad Choudhary, a regular Section Officer of CSS (CSL No.8527) in the Ministry of Road Transport & Highways as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 + Rs.6600 Grade Pay on purely ad hoc basis w.e.f. 25.09.2014 (F.N.), for a period up to 31.5.2015 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. His appointment as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the following terms and conditions:-

- i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason there for.
- iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary Grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to next higher grade.
- iv) If he has not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, he will have to undergo the afore-said training as per nominations made by the Department of Personnel & Training.

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 21st October 2014

No.A-12024/3/2014-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No.33/5/2014-EO (SM-I) (10) dated 23.9.2014, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Jaju, IAS(AP:1992) as Director (Finance/Admn.) (Joint Secretary Level), National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) in the Central Staffing Scheme under the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-4 Rs.37,400-67,000 + Rs.10,000 Grade Pay for a period of five years w.e.f. 20.10.2014 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

H.R. Meena, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in